



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष 1936 (श०)
(सं० पटना 84) पटना, शुक्रवार, 9 जनवरी 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

1 नवम्बर 2014

सं० वि०सं०(का०)-10/2014-1695/वि०सं०।—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि पंचदश बिहार विधान-सभा के माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, सं०वि०सं०, क्षेत्र संख्या-179 (बाढ़), श्री राहुल कुमार, सं०वि०सं०, क्षेत्र संख्या-217 (घोसी), श्री नीरज कुमार सिंह, सं०वि०सं०, क्षेत्र संख्या-45 (छातापुर) एवं श्री रविंद्र राय, सं०वि०सं०, क्षेत्र संख्या-126 (महुआ) दिनांक 01.11.2014 के प्रभाव से भारत का संविधान के अनुच्छेद 191(2) के साथ पठित 10वीं अनुसूची के पारा 2(1) (क) एवं बिहार विधान-सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1986 के अधीन निरर्हित हो गये हैं, फलस्वरूप भारत का संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (क) के तहत बिहार विधान-सभा में उनका स्थान रिक्त हो गया है। पंचदश बिहार विधान-सभा के पूर्व सदस्य के रूप में इन्हें कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

तदनुसार बिहार विधान-सभा के सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 84-571+20-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>